

**संतकबीरनगर पुलिस द्वारा किए गये सराहनीय कार्यों का विवरण  
नाबालिग को बहला-फुसला कर भगा ले जाने के मामले मे वांछित अभियुक्त गिरफ्तार**

थाना बखिरा पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 504/19 धारा 363/366/376 भादवि व ¾ पाक्सो एक्ट के मामलें मे वांछित अभियुक्त नाम पता रामसवारे उर्फ श्यामू पुत्र भुल्लुर निवासी लेडुआ महुआ थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार किया गया ।

विदित हो कि अभियुक्त द्वारा दिनांक 04.12.2019 को वादिनी की पुत्री को बहला फुसला कर अपने साथ भगा ले गया तथा अभियुक्त द्वारा उसके साथ दुष्कर्म किया गया, जिस पर वादिनी द्वारा दिनांक 12.12.2020 को थाना स्थानीय पर लिखित तहरीर देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था जिसमे थाना बखिरा पुलिस द्वारा आज दिनांक 23.11.2020 को अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया ।

**अवैध चाकू के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार**

थाना दुधारा पुलिस द्वारा एक अदद अवैध चाकू के साथ एक अभियुक्त नाम पता समीउल्लाह पुत्र जमीरउल्लाह निवासी उसराशहीद थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर थाना दुधारा पर मु0अ0सं0 364/20 धारा 4/25 शस्त्र अधिनियम पंजीकृत किया गया ।

**30 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ 04 अभियुक्त गिरफ्तार**

थाना दुधारा पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त नाम पता अंगद कन्नौजिया पुत्र रामअधारे निवासी तिलजा थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर को 05 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार कर थाना दुधारा पर मु0अ0सं0 363/2020 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर किया गया।

थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा 03 अभियुक्त नाम पता 1- प्रमोद पुत्र रामबहाल साहनी निवासी गंगासागर पुरवा 2- श्रीकान्त पुत्र रामसूरत निवासी उत्तरपट्टी 3- गौरी शंकर उर्फ कौलू केवट पुत्र बल्लाह निवासी अक्वल केवटलिया गंगासागर थाना मेंहादवल जनपद संतकबीरनगर को क्रमशः 10-10-05 लीटर (कुल 25 ली0) अवैध कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार कर थाना मेंहदावल पर क्रमशः मु0अ0सं0 328/2020, 329/2020 व 331/2020 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया।

## शान्ति भंग (151/107/116 सीआरपीसी) में 04 अभियुक्त गिरफ्तार

- थाना बखिरा पुलिस द्वारा 151/107/116 सीआरपीसी में 01 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया ।
- थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा 151/107/116 सीआरपीसी में 03 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया ।

## पीआरवी आफ द डे

**पीआरवी 1489 द्वारा मारपीट / विवाद को कराया गया शान्त** – पीआरवी 1489 को थाना महुली क्षेत्रांतर्गत नोक्ता से इवेन्ट संख्या 07263 से कालर ने मारपीट/विवाद के संबंध में सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा 05 मिनट में घटना स्थल पर पहुंचकर विवाद को शान्त कराकर प्रतिवादी को विधिक कार्यवाही हेतु थाना महुली के सुपर्द किया गया तथा वादी को आवश्यक विधिक कार्यवाही हेतु थाना महुली जाने को बताया गया । पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सूझबूझ से घटना स्थल पर समय से पहुंचकर एक बड़ी घटना घटित होने से बचाया गया, जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गई ।

**पीआरवी स्टाफ** – मु० आरक्षी दिनेश प्रसाद, हो०चा० दिनेश चन्द ।

**मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 231 वाहनो से 175500 रु० सम्मन शुल्क वसूल किया गया**

आज दिनांक 23-11-2020 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 231 वाहनो से 175500 रु० सम्मन शुल्क वसूल किया गया ।

जनपद-संतकबीरनगर

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक 23-11-2020

यातायात माह पर यातायात पुलिस द्वारा कराया गया रिजर्व पुलिस लाइन में किया गया कला प्रतियोगिता का आयोजन।

यातायात जागरूकता माह के अन्तर्गत **पुलिस अधीक्षक संकतबीरनगर श्री ब्रजेश सिंह** के निर्देशन में यातायात जागरूकता कार्यक्रम के दृष्टिगत आज दिनांक 22.11.2020 को यातायात पुलिस द्वारा कोविड-19 के दृष्टिगत शासन द्वारा जारी सोशल डिस्टेंसिंग व अन्य दिशा निर्देशों का पालन करते हुए रिजर्व पुलिस लाइन खलीलाबाद में वी-मार्ट खलीलाबाद के सौजन्य से यातायात जागरूकता चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में जनपद के राजकीय बालिका इण्टर कालेज, ए0वी0एम0 स्कूल, हीरालाल इण्टर कालेज तथा सेन्ट थॉमस स्कूल छात्र व छात्राओं ने प्रतिभाग किया। इस प्रतियोगिता में बच्चों द्वारा यातायात के दौरान जागरूकता संबंधी चित्रों को बना कर लोगों को जागरूक किया गया। प्रतियोगिता के दौरान जूनियर वर्ग में प्रथम स्थान सेण्ट थामस स्कूल की कु0 सृष्टि पाण्डेय, द्वितीय स्थान हीरालाल इण्टर कालेज की कु0 दीक्षा राय व तृतीय स्थान सेण्ट थामस स्कूल के निशांत शुक्ला ने प्राप्त किया तथा सीनियर वर्ग में प्रथम स्थान राजकीय कन्या इण्टर कालेज की कु0 सुमन राव, द्वितीय स्थान राजकीय कन्या इण्टर कालेज की ही कु0 पल्लवी विश्वकर्मा ने तथा तृतीय स्थान सेण्ट थामस इण्टर कालेज की छात्रा कु0 नाजिना खातून ने प्राप्त किया। पुरस्कार विजेताओं को क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद/ यातायात श्री गयादत्त मिश्रा द्वारा प्रशस्ति पत्र देकर उत्साह वर्धन किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान क्षेत्राधिकारी यातायात श्री गया दत्त मिश्रा ने छात्र और छात्राओं को यातायात संबंधी नियमों के बारे में अवगत कराया व उपस्थित सभी व्यक्तियों को यातायात नियमों को पालन हेतु संकल्प दिलाया। कार्यक्रम में प्रतिसार निरीक्षक पंकज त्रिपाठी व प्रभारी यातायात श्री संतोष कुमार मिश्रा, यातायात पुलिस के एचसीपी श्री जगदम्बा गुप्ता, एच0सी0पी0 अनिल शर्मा, एच0सी0पी0 भोला प्रसाद एच0सी0पी0 नन्द लाल, का0 कृष्णानन्द पाण्डेय, का0 अजय पाण्डेय, का0 सुमित शर्मा, अन्य पुलिसकर्मी व स्कूल प्रबन्धन के अध्यापकगण व अन्य सम्मानित गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे।